



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 642]

नई दिल्ली, रविवार, दिसम्बर 7, 2008/अग्राहायण 16, 1930

No. 642]

NEW DELHI, SUNDAY, DECEMBER 7, 2008/AGRAHAYANA 16, 1930

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2008

सं. 33/2008-सेवाकर

सा.का.नि. 839(अ).—वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 41/2007-सेवाकर तारीख 6 अक्टूबर, 2007 [सा०का०नि० 645 (अ) जो भारत के राजपत्र, आसाधारण में तारीख 6 अक्टूबर, 2007 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं; अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में,-

- (1) पैराग्राफ 1 में, परंतुक में, उप-पैराग्राफ (ड) का लोप किया जायेगा;
- (2) अनुसूची में,-
 - (i) क्रम सं० 15 के सामने, स्तंभ (4) में, मद (vi) में, शब्द “2 प्रतिशत” के स्थान पर “10 प्रतिशत” प्रतिस्थापित किया जायेगा;
 - (ii) क्रम सं० 18 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जायेगा,

अर्थात:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“ 19.	धारा 65 (105) (अ)	निर्यात माल के संबंध में समाशोधन और अग्रेषण एजेंट द्वारा प्रदान की गई सेवाएं ।	निर्यातक प्रस्तुत करें- (i) स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट समाशोधन और अग्रेषण एजेंट द्वारा प्रेषित किया गया बीजक जिसमें निम्नलिखित विनिर्दिष्ट है : (क) शिपिंग बिल का संख्या और तारीख, (ख) निर्यात माल का विवरण, (ग) निर्यात माल से संबंधित निर्यातक द्वारा जारी बीजक का संख्या और तारीख,

			(घ) समाशोधन और अग्रेषण एजेंट द्वारा निर्यात माल से संबंधित निर्यातक शुल्क जो वापस हो या न हो उसका ब्यौरा भी प्रस्तुत करेगा; (ii) कर सेवाएं जो उक्त समाशोधन और अग्रेषण एजेंट द्वारा प्रदान की गईं और निर्यातक द्वारा प्राप्त की गईं का ब्यौरा, जिसका निर्यात माल से संबंध है या नहीं। ”;
--	--	--	--

(3) फार्म में, क्रम सं० 10 में, मद (iii) का लोप किया जायेगा।

2. यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. 341/15/2007-टीआरयू]

उन्मेष बाघ, अवर सचिव

नोट:- मूल अधिसूचना सा.का.नि. 645 (अ), दिनांक 6 अक्टूबर, 2007 के जरिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित हुई थी और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना सं. 32/2008-सेवा कर, दिनांक 18 नवम्बर, 2008 के जरिए किया गया था जो सा.का.नि. 794 (अ), दिनांक 18 नवम्बर, 2008 के जरिए भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित हुई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2008

No.33/2008-Service Tax

G.S.R. 839(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.41/2007-Service Tax, dated the 6th October, 2007 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide number G.S.R. 645(E), dated the 6th October, 2007, namely:-

In the said notification,—

(1) in paragraph 1, in the proviso, sub-paragraph (e) shall be omitted;

(2) in the Schedule,—

(i) against Sr.No.15, in column (4), in item (vi), for the words “two per cent.”, the words “ten per cent.” shall be substituted;

(ii) after Sr.No.18 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“19.	section 65(105)(j)	services provided by a clearing and forwarding agent in relation to export goods exported by the exporter.	exporter shall produce,- (i) invoice issued by clearing and forwarding agent for providing services specified in column (3) specifying: (a) number and date of shipping bill, (b) description of export goods, (c) number and date of the invoice issued by the exporter relating to export goods.

			<p>(d) details of all the charges, whether or not reimbursable, collected by the clearing and forwarding agent from the exporter in relation to export goods,</p> <p>(ii) details of other taxable services provided by the said clearing and forwarding agent and received by the exporter, whether or not relatable to export goods.”;</p>
--	--	--	--

(3) in the Form, in serial No.10, item (iii) shall be omitted.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F.No.341/15/2007-TRU]

UNMESH WAGH, Under Secy.

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), vide number G.S.R. 645(E), dated the 6th October, 2007 and was last amended by notification No.32/2008-Service Tax, dated the 18th November, 2008 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide number G.S.R. 794(E), dated the 18th November, 2008.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2008

सं. 58/2008-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 840(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक है, एतद्वारा निर्देश देती है कि एतश्मिन संलग्न सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की प्रत्येक अधिसूचनाओं में उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि के अनुसार संशोधन या और आगे संशोधन, जैसी स्थिति हो, किया जाएगा, यथा:-

सारणी

क्र.सं.	अधिसूचना सं. तथा तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	23/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 31 मार्च, 2003	<p>उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-</p> <p>(i) क्रम सं. 5 के समक्ष कॉलम (4) में दी गई प्रविष्टि के लिए प्रविष्टि “शून्य” की अधिकता में।</p> <p>स्पष्टीकरण:- माल के मूल्य का निर्धारण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 4 के दृष्टिकोण से किया जाएगा” को प्रतिस्थापित किया जाए।</p> <p>(ii) क्रम सं. 5क के समक्ष, स्तम्भ (4) में दी गई प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि “ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तटकर अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्पाद शुल्क के 4% के बराबर राशि के आधिक्य में ।</p>

		<p>स्पष्टीकरण:- माल के मूल्य का निर्धारण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 4 के दृष्टिकोण से किया जायेगा" को प्रतिस्थापित किया जाए।</p> <p>(iii) क्रम सं. 6 के समक्ष, स्तम्भ (4) में दी गई प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि " केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तटकर अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्पाद शुल्क के 4% राशि के बराबर के आधिक्य में।</p> <p>स्पष्टीकरण:- माल के मूल्य का निर्धारण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 4 के दृष्टिकोण से किया जायेगा" को प्रतिस्थापित किया जाए।</p> <p>(iv) क्रम सं. 7 के समक्ष, स्तम्भ (4) में दी गई प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि " शून्य के आधिक्य में।</p> <p>स्पष्टीकरण:- माल के मूल्य का निर्धारण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 4 के दृष्टिकोण से किया जायेगा" को प्रतिस्थापित किया जाए।</p> <p>(v) क्रम सं. 7क के समक्ष, स्तम्भ (4) में दी गई प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि " केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तटकर अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्पाद शुल्क के 4% राशि के बराबर के आधिक्य में।</p> <p>स्पष्टीकरण:- माल के मूल्य का निर्धारण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 4 के दृष्टिकोण से किया जायेगा" को प्रतिस्थापित किया जाए।</p>
2.	29/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 9 जुलाई, 2004	<p>उक्त अधिसूचना की सारणी के स्तम्भ (4) में,-</p> <p>(i) प्रविष्टि "8%", जहाँ कभी भी यह हो, के स्थान पर प्रविष्टि "4%" प्रतिस्थापित किया जाय।</p> <p>(ii) प्रविष्टि "4%", जहाँ कभी भी यह हो, के स्थान पर प्रविष्टि "शून्य" प्रतिस्थापित किया जाय।</p>
3.	3/2005-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 24 फरवरी, 2005	<p>उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं. 73 के समक्ष स्तम्भ (4) में प्रविष्टि "8%", के स्थान पर प्रविष्टि "4%" प्रतिस्थापित किया जाय।</p>
4.	3/2006-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2006	<p>उक्त अधिसूचना की, सारणी के, स्तम्भ (4) में,-</p> <p>(i) प्रविष्टि "14%", जहाँ कभी भी यह हो, के स्थान</p>

		पर प्रविष्टि "10%" प्रतिस्थापित किया जाय। (ii) प्रविष्टि "8%", जहाँ कही भी यह हो, के स्थान पर प्रविष्टि "4%" प्रतिस्थापित किया जाय।
5.	4/2006-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2006	उक्त अधिसूचना की, सारणी के, स्तम्भ (4) में,- (i) प्रविष्टि "12%", जहाँ कही भी यह हो, के स्थान पर प्रविष्टि "8%" प्रतिस्थापित किया जाय। (ii) प्रविष्टि "8%", केवल क्रम सं. 22 और 27 के समक्ष दी गई प्रविष्टि को छोड़कर, जहाँ कही भी यह हो, के स्थान पर प्रविष्टि "4%" प्रतिस्थापित किया जाय। (iii) प्रविष्टि "220 रुपये प्रति टन", जहाँ कही भी यह हो, के स्थान पर प्रविष्टि "145 रुपये प्रति टन" प्रतिस्थापित किया जाय। (iv) प्रविष्टि "370 रुपये प्रति टन", जहाँ कही भी यह हो, के स्थान पर प्रविष्टि "250 रुपये प्रति टन" प्रतिस्थापित किया जाय। (v) प्रविष्टि "350 रुपये प्रति टन", जहाँ कही भी यह हो, के स्थान पर प्रविष्टि "230 रुपये प्रति टन" प्रतिस्थापित किया जाय। (vi) प्रविष्टि "खुदरा बिक्री मूल्य का 12%", जहाँ कही भी यह हो, के स्थान पर प्रविष्टि "खुदरा बिक्री मूल्य का 8%" प्रतिस्थापित किया जाय। (vii) प्रविष्टि "250 रुपये प्रति टन", जहाँ कही भी यह हो, के स्थान पर प्रविष्टि "170 रुपये प्रति टन" प्रतिस्थापित किया जाय। (viii) प्रविष्टि "14% या 400 रुपये प्रति टन, जो भी अधिक हो", जहाँ कही भी यह हो, के स्थान पर प्रविष्टि "10% या 290 रुपये प्रति टन, जो भी अधिक हो" प्रतिस्थापित किया जाय। (ix) प्रविष्टि "ऐसे गोल्ड प्रोटेसियम साइनाइड का 14% जिसमें ऐसे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त सोने का मूल्य शामिल नहीं है", जहाँ कही भी यह हो, के स्थान पर प्रविष्टि "ऐसे गोल्ड प्रोटेसियम साइनाइड के मूल्य का 10% जिसमें ऐसे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त सोने का मूल्य शामिल नहीं है" प्रतिस्थापित किया जाय।

4805 GI/08-2

		(x) प्रविष्टि "यदि कोई पदार्थ जोड़ा गया है तो उसके मूल्य का और ऐसे विनिर्माण पर भारित राशि का 14%", जहाँ कही भी यह हो, के स्थान पर प्रविष्टि "यदि कोई पदार्थ जोड़ा गया है तो उसके मूल्य का और ऐसे विनिर्माण पर भारित राशि का 10%" प्रतिस्थापित किया जाय।
6.	5/2006-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2006	उक्त अधिसूचना की, सारणी के, स्तम्भ (4) में,- (i) प्रविष्टि "14%", जहाँ कही भी यह हो, के स्थान पर प्रविष्टि "10%" प्रतिस्थापित किया जाय। (ii) प्रविष्टि "12%", जहाँ कही भी यह हो, के स्थान पर प्रविष्टि "8%" प्रतिस्थापित किया जाय। (iii) प्रविष्टि "8%", जहाँ कही भी यह हो, के स्थान पर प्रविष्टि "4%" प्रतिस्थापित किया जाय।
7.	6/2006-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2006	उक्त अधिसूचना की सारणी के स्तम्भ (4) में,- (i) प्रविष्टि "24%", जहाँ कही भी यह हो, के स्थान पर प्रविष्टि "20%" प्रतिस्थापित किया जाय। (ii) प्रविष्टि "24%+15000 हजार रुपये प्रति एकक", जहाँ कही भी यह हो, के स्थान पर प्रविष्टि "20%+15000 हजार रुपये प्रति एकक" प्रतिस्थापित किया जाय। (iii) प्रविष्टि "14%", जहाँ कही भी यह हो, के स्थान पर प्रविष्टि "10%" प्रतिस्थापित किया जाय। (iv) प्रविष्टि "14%+ 10,000 हजार रुपये प्रति चेंसिस", जहाँ कही भी यह हो, के स्थान पर प्रविष्टि "10%+10,000 हजार रुपये प्रति चेंसिस" प्रतिस्थापित किया जाय। (v) प्रविष्टि "12%", जहाँ कही भी यह हो, के स्थान पर प्रविष्टि "8%" प्रतिस्थापित किया जाय। (vi) प्रविष्टि "12%+ 10,000 हजार रुपये प्रति चेंसिस", जहाँ कही भी यह हो, के स्थान पर प्रविष्टि "8%+ 10,000 हजार रुपये प्रति चेंसिस" प्रतिस्थापित किया जाय। (vii) प्रविष्टि "8%", जहाँ कभी भी यह हो, के स्थान पर प्रविष्टि "4%" प्रतिस्थापित किया जाय।

8.	10/2006-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2006	उक्त अधिसूचना की सारणी के स्तम्भ (4) की प्रविष्टि "8%", जहाँ कहीं भी यह हो, के स्थान पर प्रविष्टि "4%" प्रतिस्थापित किया जाय।
9.	49/2006-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 30 दिसम्बर, 2006	उक्त अधिसूचना की सारणी के स्तम्भ (4) में प्रविष्टि "12%", जहाँ कहीं भी यह हो, के स्थान पर प्रविष्टि "8%" प्रतिस्थापित किया जाय।
10.	2/2008-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2008	उक्त अधिसूचना की सारणी के स्तम्भ (3) में,- (i) प्रविष्टि "14%", केवल क्रम सं. 14, 16 और 18 के समक्ष दी गई प्रविष्टि को छोड़ कर, जहाँ कहीं भी यह हो, के स्थान पर प्रविष्टि "10%" प्रतिस्थापित किया जाय। (ii) प्रविष्टि "14%+10,000 हजार रुपये प्रति चैसिस", जहाँ कहीं भी यह हो, के स्थान पर प्रविष्टि "10%+10,000 हजार रुपये प्रति चैसिस" प्रतिस्थापित किया जाय।

[फा. सं. 354/210/2008-टीआरयू]

उन्मेष वाघ, अवर सचिव

नोट:- (1) मूल अधिसूचना सं. 23/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 31 मार्च, 2003 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप खंड (i) में उसी तिथि के सा.का.नि.सं. 266 (अ) के जरिए प्रकाशित हुई थी और इसमें अंतिम बार संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप खंड (i) में उसी तिथि के सा.का.नि.सं. (अ) के जरिए प्रकाशित अधिसूचना सं. 26/2008-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 5 मई, 2008 के द्वारा किया गया था।

(2) मूल अधिसूचना सं. 29/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 9 जुलाई, 2004 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप खंड (i) में उसी तिथि के सा.का.नि.सं. 420 (अ) के जरिए प्रकाशित हुई थी और इसमें अंतिम बार संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप खंड (i) में उसी तिथि के सा.का.नि.सं. 141 (अ) के जरिए प्रकाशित अधिसूचना सं. 12/2007-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2007 के द्वारा किया गया था।

(3) मूल अधिसूचना सं. 3/2005-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 24 फरवरी, 2005 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप खंड (i) में उसी तिथि के सा.का.नि.सं. 95 (अ) के जरिए प्रकाशित हुई थी और इसमें अंतिम बार संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप खंड (i) में उसी तिथि के सा.का.नि.सं. (अ) के जरिए प्रकाशित अधिसूचना सं. 57/2008-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 के द्वारा किया गया था।

(4) मूल अधिसूचना सं. 3/2006-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2006 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप खंड (i) में उसी तिथि के सा.का.नि.सं. 93 (अ) के

(10) मूल अधिसूचना सं. 2/2008-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2008 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप खंड (i) में उसी तिथि के सा.का.नि.सं. 130 (अ) के जरिए प्रकाशित हुई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2008

Notification No.58/2008 - Central Excise

G.S.R. 840(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be amended or further amended, as the case may be, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely :-

TABLE

S. No.	Notification number and date	Amendments
(1)	(2)	(3)
1.	23/2003-Central Excise, dated the 31 st March, 2003	<p>In the said notification, in the Table, -</p> <p>(i) against Sr. No. 5, for the entry in column (4), the entry "In excess of "Nil"</p> <p>Explanation.- The value of the goods shall be determined in terms of section 4 of the Central Excise Act." shall be substituted;</p> <p>(ii) against Sr. No. 5A, for the entry in column (4), the entry "In excess of amount equal to 4% of duty of excise specified in the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985(5 of 1986).</p> <p>Explanation.- The value of the goods shall be determined in terms of section 4 of the Central Excise Act." shall be substituted;</p> <p>(iii) against Sr. No. 6, for the entry in column (4), the entry "In excess of amount equal to 4% of duty of excise specified in the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985(5 of 1986).</p> <p>Explanation.- The value of the goods shall be determined in terms of section 4 of the Central Excise Act." shall be substituted;</p> <p>(iv) against Sr. No. 7, for the entry in column (4), the entry "In excess of "Nil"</p> <p>Explanation.- The value of the goods shall be determined in terms of section 4 of the Central Excise Act." shall be</p>

4805 GI/08-3

S. No.	Notification number and date	Amendments
(1)	(2)	(3)
		substituted; (v) against Sr. No. 7A, for the entry in column (4), the entry "In excess of amount equal to 4% of duty of excise specified in the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985(5 of 1986). Explanation.- The value of the goods shall be determined in terms of section 4 of the Central Excise Act." shall be substituted.
2.	29/2004-Central Excise, dated the 9 th July, 2004	In the said notification, in the Table, in column (4), - (i) for the entry "8%", wherever it occurs, the entry "4%" shall be substituted; (ii) for the entry "4%", wherever it occurs, the entry "Nil" shall be substituted.
3.	3/2005-Central Excise, dated the 24 th February, 2005	In the said notification, in the Table, against S. No.73, for the entry "8%" in column (4), the entry "4%" shall be substituted.
4.	3/2006-Central Excise, dated the 1st March, 2006	In the said notification, in the Table, in column (4), - (i) for the entry "14%", wherever it occurs, the entry "10%" shall be substituted; (ii) for the entry "8%", wherever it occurs, the entry "4%" shall be substituted.
5.	4/2006-Central Excise, dated the 1st March, 2006	In the said notification, in the Table, in column (4), - (i) for the entry "12%", wherever it occurs, the entry "8%" shall be substituted; (ii) for the entry "8%", wherever it occurs except for the entry occurring against S. No. 22 and 27, the entry "4%" shall be substituted; (iii) for the entry "Rs.220 per tonne", wherever it occurs, the entry "Rs.145 per tonne" shall be substituted; (iv) for the entry "Rs.370 per tonne", wherever it occurs, the entry "Rs.250 per tonne" shall be substituted; (v) for the entry "Rs.350 per tonne", wherever it occurs, the entry "Rs.230 per tonne" shall be substituted; (vi) for the entry "12% of retail sale price", wherever it occurs, the entry "8% of retail sale price" shall be substituted; (vii) for the entry "Rs.250 per tonne", wherever it occurs, the entry "Rs.170 per tonne" shall be substituted; (viii) for the entry "14% or Rs.400 per tonne, whichever is higher", wherever it occurs, the entry "10% or Rs.290 per tonne, whichever is higher" shall be substituted

S. No.	Notification number and date	Amendments
(1)	(2)	(3)
		<p>(ix) for the entry "14% of the value of such gold potassium cyanide excluding the value of gold used in the manufacture of such goods", wherever it occurs, the entry "10% of the value of such gold potassium cyanide excluding the value of gold used in the manufacture of such goods" shall be substituted;</p> <p>(x) for the entry "14% of the value of material, if any, added and the amount charged for such manufacture", wherever it occurs, the entry "10% of the value of material, if any, added and the amount charged for such manufacture" shall be substituted.</p>
6.	5/2006-Central Excise, dated the 1st March, 2006	<p>In the said notification, in the Table, in column (4), -</p> <p>(i) for the entry "14%", wherever it occurs, the entry "10%" shall be substituted;</p> <p>(ii) for the entry "12%", wherever it occurs, the entry "8%" shall be substituted;</p> <p>(iii) for the entry "8%", wherever it occurs, the entry "4%" shall be substituted.</p>
7.	6/2006-Central Excise, dated the 1st March, 2006	<p>In the said notification, in the Table, in column (4), -</p> <p>(i) for the entry "24%", wherever it occurs, the entry "20%" shall be substituted;</p> <p>(ii) for the entry "24% + Rs.15,000 per unit", wherever it occurs, the entry "20% + Rs.15,000 per unit" shall be substituted;</p> <p>(iii) for the entry "14%", wherever it occurs, the entry "10%" shall be substituted;</p> <p>(iv) for the entry "14% + Rs.10,000 per chassis", wherever it occurs, the entry "10% + Rs.10,000 per chassis" shall be substituted;</p> <p>(v) for the entry "12%", wherever it occurs, the entry "8%" shall be substituted;</p> <p>(vi) for the entry "12% + Rs.10,000 per chassis", wherever it occurs, the entry "8% + Rs.10,000 per chassis" shall be substituted;</p> <p>(vii) for the entry "8%", wherever it occurs, the entry "4%" shall be substituted.</p>
8.	10/2006-Central Excise, dated the 1st March, 2006	In the said notification, in the Table, in column (4), for the entry "8%", wherever it occurs, the entry "4%" shall be substituted.
9.	49/2006-Central Excise, dated the 30 th December,	In the said notification, in the Table, in column (4), for the entry "12%", wherever it occurs, the entry "8%" shall be substituted.

S. No.	Notification number and date	Amendments
(1)	(2)	(3)
	2006	
10.	2/2008-Central Excise, dated the 1st March, 2008	In the said notification, in the Table, in column (3), - (i) for the entry "14%", wherever it occurs except for the entry occurring against S. No. 14, 16 and 18, the entry "10%" shall be substituted; (ii) for the entry "14% + Rs.10,000 per chassis", wherever it occurs, the entry "10% + Rs.10,000 per chassis" shall be substituted.

[F.No. 354/210/2008-TRU]
UNMESH WAGH, Under Secy.

Note.-

- (1) The principal notification No.23/2003-Central Excise dated the 31st March, 2003, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 266(E), of the same date and was last amended vide notification No.26/2008-Central Excise, dated the 5th May, 2008, which was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. ____ (E) of the same date.
- (2) The principal notification No.29/2004-Central Excise dated the 9th July, 2004, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 420(E), of the same date and was last amended vide notification No.12/2007-Central Excise, dated the 1st March, 2007, which was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 141(E) of the same date.
- (3) The principal notification No.3/2005-Central Excise dated the 24th February, 2005, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R.95(E), of the same date and was last amended vide notification No.57/2008-Central Excise, dated the 5th December, 2008, which was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. ____ (E) of the same date.
- (4) The principal notification No.3/2006-Central Excise dated the 1st March, 2006, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 93(E), of the same date and was last amended vide notification No.3/2008-Central Excise, dated the 1st March, 2008, which was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 131(E) of the same date.
- (5) The principal notification No.4/2006-Central Excise dated the 1st March, 2006, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R.94(E), of the same date and was last amended vide notification No. 45/2008-Central Excise, dated the 6th August, 2008, which was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 580(E) of the same date.
- (6) The principal notification No.5/2006-Central Excise dated the 1st March, 2006, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide

- number G.S.R. 95(E), of the same date and was last amended vide notification No.5/2008-Central Excise, dated the 1st March, 2008, which was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R.133(E) of the same date.
- (7) The principal notification No.6/2006-Central Excise dated the 1st March, 2006, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 96(E), of the same date and was last amended vide notification No. 46/2008-Central Excise, dated the 14th August, 2008, which was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R.597(E) of the same date.
- (8) The principal notification No.10/2006-Central Excise dated the 1st March, 2006, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 100(E), of the same date and was last amended vide notification No.10/2007-Central Excise, dated the 1st March, 2007, which was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 139(E) of the same date.
- (9) The principal notification No.49/2006-Central Excise dated the 30th December, 2006, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 805(E), of the same date and was last amended vide notification No.12/2008-Central Excise, dated the 1st March, 2008, which was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 140(E) of the same date.
- (10) The principal notification No.2/2008-Central Excise dated the 1st March, 2008, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R.130(E), of the same date.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2008

सं. 59/2008-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 841(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अधिनियम 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना जनहित में अनिवार्य है, एतद्वारा, नीचे की सारणी में यथा विनिर्दिष्ट केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अध्याय, शीर्ष, उप शीर्ष अथवा टैरिफ मद के अंतर्गत आने वाले माल को उक्त प्रथम अनुसूची के अंतर्गत उनपर उद्ग्राह्य उतने उत्पाद शुल्क से मुक्त करती है जितना उपर्युक्त सारणी के कॉलम (3) में दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर परिकलित राशि से अधिक है।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के उद्देश्यों के लिए उक्त सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट दरें जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो यथा मूल्य दरें हैं।

सारणी

क्र.सं.	प्रथम अनुसूची का अध्याय अथवा शीर्ष अथवा उपशीर्ष अथवा टैरिफ मद	दर
(1)	(2)	(3)
1.	1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516 (1516 10 00 को छोड़कर), 1517 (1517 10 22 को छोड़कर) और 1518	4%
2.	1905 31 00, 32 19, 1905 90 10 और 1905 90 20	4%

480367/08-4

3.	5004, 5005, 5006 और 5007	4%
4.	5105, 5106, 5107, 5108, 5109, 5110, 5111, 5112 और 5113	4%
5.	5204, 5205, 5206, 5207, 5208, 5209, 5210, 5211 और 5212	4%
6.	5302, 5305, 5306, 5308 (5308 10 10 और 5308 10 90 को छोड़कर), 5309, 5310 और 5311	4%
7.	5401, 5404 90, 5405 00 00, 5407 (5407 10 15, 5407 10 25, 5407 10 35, 5407 10 45, 5407 10 95, 5407 20 10, 5407 20 20, 5407 20 30, 5407 20 40, 5407 20 90, 5407 30 10, 5407 30 20, 5407 30 30, 5407 30 40, 5407 30 90, 5407 41 19, 5407 41 29, 5407 42 90, 5407 43 00, 5407 44 90, 5407 71 10, 5407 71 20, 5407 72 00, 5407 73 00, 5407 74 00, 5407 81 19, 5407 81 29, 5407 82 90, 5407 83 00, 5407 84 90, 5407 91 10, 5407 91 20, 5407 92 00, 5407 93 00 और 5407 94 00 को छोड़कर) और 5408	4%
8.	5407 10 15, 5407 10 25, 5407 10 35, 5407 10 45, 5407 10 95, 5407 20 10, 5407 20 20, 5407 20 30, 5407 20 40, 5407 20 90, 5407 30 10, 5407 30 20, 5407 30 30, 5407 30 40, 5407 30 90, 5407 41 19, 5407 41 29, 5407 42 90, 5407 43 00, 5407 44 90, 5407 71 10, 5407 71 20, 5407 72 00, 5407 73 00, 5407 74 00, 5407 81 19, 5407 81 29, 5407 82 90, 5407 83 00, 5407 84 90, 5407 91 10, 5407 91 20, 5407 92 00, 5407 93 00 और 5407 94 00	8%
9.	5508, 5509, 5510, 5511, 5512, 5513, 5514, 5515 और 5516	4%
10.	5601 (5601 10 00 और 5601 22 00 को छोड़कर), 5602, 5603, 5604, 5605, 5606, 5607 (5607 50 10 को छोड़कर), 5608 (5608 11 10 और 5608 11 90 को छोड़कर) और 5609	4%
11.	5607 50 10, 5608 11 10 और 5608 11 90	8%
12.	57	4%
13.	5801 (5801 22 10 और 5801 35 00 को छोड़कर), 5802, 5803, 5804 (5804 30 00 को छोड़कर), 5806, 5808, 5809, 5810 और 5811.	4%
14.	5901, 5902 (5902 10 10 और 5902 10 90 को छोड़कर), 5903, 5904, 5905, 5906, 5907, 5908, 5909, 5910 और 5911.	4%
15.	60	4%
16.	61	4%
17.	62	4%
18.	63 (6309 00 00 और 6310 को छोड़कर)	4%
19.	8523 80 20	8%
20.	8702 10 11, 8702 10 12, 8702 10 19, 8702 90 11, 8702 90 12, 8702 90 19, 8703 23 10, 8703 23 91, 8703 23 92, 8703 23 99, 8703 24 10, 8703 24 91, 8703 24 92, 8703 24 99, 8703 32 10, 8703 32 91, 8703 32 92, 8703 32 99, 8703 33 10, 8703 33 91, 8703 33 92, 8703 33 99, 8703 90 90.	20% + 20,000 रु. प्रति यूनिट
21.	8702 90 13, 8703 (8703 23 10, 8703 23 91, 8703 23 92, 8703 23 99, 8703 24 10, 8703 24 91, 8703 24 92, 8703 24 99, 8703 32 10, 8703 32 91, 8703 32 92, 8703 32 99, 8703 33 10, 8703 33 91, 8703 33 92, 8703 33 99, 8703 90 90 को छोड़कर), 8704 10 90, 8704 31 10, 8704 31 90, 8704 32, 8704 90, 8706 00 21, 8706 00 39	20%

22.	8706 00 43, 8706 00 49	20% + 10,000 रु. प्रति चेसिस
23.	9001 30 00, 9001 40 10, 9001 40 90, 9001 50 00	4%
24.	9504 40 00	4%

[फा. सं. 354/210/2008-टीआरयू]

उन्मेष वाघ, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2008

Notification No. 59/2008 -Central Excise

G.S.R. 841(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods falling under the Chapter, heading, sub-heading or tariff item of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), as are specified in column (2) of the Table below, from so much of the duty of excise leviable thereon under the said First Schedule as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (3) of the Table aforesaid.

Explanation. - For the purposes of this notification, the rates specified in column (3) of the said Table are ad valorem rates, unless otherwise specified.

Table

S.No.	Chapter or heading or sub-heading or tariff item of the First Schedule	Rate
(1)	(2)	(3)
1.	1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516 (excluding 1516 10 00), 1517 (excluding 1517 10 22) and 1518	4%
2.	1905 31 00, 1905 32 19, 1905 90 10 and 1905 90 20	4%
3.	5004, 5005, 5006 and 5007	4%
4.	5105, 5106, 5107, 5108, 5109, 5110, 5111, 5112 and 5113	4%
5.	5204, 5205, 5206, 5207, 5208, 5209, 5210, 5211 and 5212	4%
6.	5302, 5305, 5306, 5308 (excluding 5308 10 10 and 5308 10 90), 5309, 5310 and 5311	4%
7.	5401, 5404 90, 5405 00 00, 5407 (excluding 5407 10 15, 5407 10 25, 5407 10 35, 5407 10 45, 5407 10 95, 5407 20 10, 5407 20 20, 5407 20 30, 5407 20 40, 5407 20 90, 5407 30 10, 5407 30 20, 5407 30 30, 5407 30 40, 5407 30 90, 5407 41 19, 5407 41 29, 5407 42 90, 5407 43 00, 5407 44 90, 5407 71 10, 5407 71 20, 5407 72 00, 5407 73 00, 5407 74 00, 5407 81 19, 5407 81 29, 5407 82 90, 5407 83 00, 5407 84 90, 5407 91 10, 5407 91 20, 5407 92 00, 5407 93 00 and 5407 94 00) and 5408	4%
8.	5407 10 15, 5407 10 25, 5407 10 35, 5407 10 45, 5407 10 95, 5407 20 10, 5407 20 20, 5407 20 30, 5407 20 40, 5407 20 90, 5407 30 10, 5407 30 20, 5407 30 30, 5407 30 40, 5407 30 90, 5407 41 19, 5407 41 29, 5407 42 90, 5407 43 00, 5407 44 90, 5407 71 10, 5407 71 20, 5407 72 00, 5407 73 00, 5407 74 00, 5407 81 19, 5407 81	8%

	29, 5407 82 90, 5407 83 00, 5407 84 90, 5407 91 10, 5407 91 20, 5407 92 00, 5407 93 00 and 5407 94 00	
9.	5508, 5509, 5510, 5511, 5512, 5513, 5514, 5515 and 5516	4%
10.	5601 (excluding 5601 10 00 and 5601 22 00), 5602, 5603, 5604, 5605, 5606, 5607 (excluding 5607 50 10), 5608 (excluding 5608 11 10 and 5608 11 90) and 5609	4%
11.	5607 50 10, 5608 11 10 and 5608 11 90	8%
12.	57	4%
13.	5801 (excluding 5801 22 10 and 5801 35 00), 5802, 5803, 5804 (excluding 5804 30 00), 5806, 5808, 5809, 5810 and 5811.	4%
14.	5901, 5902 (excluding 5902 10 10 and 5902 10 90), 5903, 5904, 5905, 5906, 5907, 5908, 5909, 5910 and 5911.	4%
15.	60	4%
16.	61	4%
17.	62	4%
18.	63 (excluding 6309 00 00 and 6310)	4%
19.	8523 80 20	8%
20.	8702 10 11, 8702 10 12, 8702 10 19, 8702 90 11, 8702 90 12, 8702 90 19, 8703 23 10, 8703 23 91, 8703 23 92, 8703 23 99, 8703 24 10, 8703 24 91, 8703 24 92, 8703 24 99, 8703 32 10, 8703 32 91, 8703 32 92, 8703 32 99, 8703 33 10, 8703 33 91, 8703 33 92, 8703 33 99, 8703 90 90.	20% + Rs 20,000 per unit
21.	8702 90 13, 8703 (excluding 8703 23 10, 8703 23 91, 8703 23 92, 8703 23 99, 8703 24 10, 8703 24 91, 8703 24 92, 8703 24 99, 8703 32 10, 8703 32 91, 8703 32 92, 8703 32 99, 8703 33 10, 8703 33 91, 8703 33 92, 8703 33 99, 8703 90 90), 8704 10 90, 8704 31 10, 8704 31 90, 8704 32, 8704 90, 8706 00 21, 8706 00 39	20%
22.	8706 00 43, 8706 00 49	20% + Rs 10,000 per chassis
23.	9001 30 00, 9001 40 10, 9001 40 90, 9001 50 00	4%
24.	9504 40 00	4%

[F.No. 354/210/2008-TRU]
UNMESH WAGH, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2008

सं. 128/2008-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 842(अ).— केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 21/2002-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002, सा०का०नि० 118 (अ), तारीख 1 मार्च, 2002 में निम्नलिखित और संशोधन करती है यथा:-

(1) प्रस्तावना में, परंतुक में, खंड (ज) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जायेगा, यथा:-

“(जक) उक्त सारणी में क्रम सं० 74ख के सामने विनिर्दिष्ट माल या 1 अप्रैल, 2009 के पश्चात”

(2) सारणी में,-

(i) क्रम सं० 74क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जायेगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“ 74ख.	2710	नाफता, जब विद्युत की आपूर्ति करने के लिये विद्युत आपूर्ति के कारोबार में शामिल होने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों या राज्य विद्युत बोर्डों या किसी स्थानीय प्राधिकारी या व्यक्ति जिसको विद्युत अधिनियम 1910 के भाग- II के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त है या जिसने उक्त अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत स्वीकृत प्राप्त कर लिया है या ऐसी विद्युत उत्पादक कम्पनी जिसको विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अनुमति दी गई है, के द्वारा विद्युत उत्पादन हेतु आयात किया जाता है : परंतुक, इस छूट का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा जो अपने गृहीत खपत के लिए बिजली का उत्पादन करते हैं।	कुछ नहीं	-	”

(ii) क्रम सं० 226 के सामने, स्तंभ (5) की प्रविष्टि में, प्रविष्टि “10%” प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iii) क्रम सं० 228 के सामने, स्तंभ (5) की प्रविष्टि में, प्रविष्टि “10%” प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iv) क्रम सं० 236 के सामने, स्तंभ (5) की प्रविष्टि में, प्रविष्टि “10%” प्रतिस्थापित की जायेगी;

(v) क्रम सं० 237 के सामने, स्तंभ (5) की प्रविष्टि में, प्रविष्टि “10%” प्रतिस्थापित की जायेगी;

(vi) क्रम सं० 344क के सामने, स्तंभ (5) की प्रविष्टि में, प्रविष्टि “10%” प्रतिस्थापित की जायेगी;

(vii) क्रम सं० 399 के सामने, स्तंभ (5) के सामने (i),(ii),(iv) तथा (vi) के स्तंभ (3) की प्रविष्टि में, प्रविष्टि “10%” प्रतिस्थापित की जायेगी;

(viii) क्रम सं० 404 के सामने, स्तंभ (5) की प्रविष्टि में, प्रविष्टि “10%” प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ix) क्रम सं० 433 के सामने, स्तंभ (5) के सामने प्रविष्टि (1) के स्तंभ (4) में प्रविष्टि में, प्रविष्टि “10%” प्रतिस्थापित की जायेगी।

[फा. सं. 354/207/2008-टीआरयू.]

उन्मेष वाघ, अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना 21/2002-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 भारत के राजपत्र, असाधारण, सा०का०नि० 118 (अ), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं० 122/2008-सीमाशुल्क, तारीख 18 नवम्बर, 2008 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, सा०का०नि० 794 (अ), तारीख 18 नवम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित की गई थी, के द्वारा किया गया था।

4805 GJ/08-5

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2008

No. 128 /2008-Customs

G.S.R. 842(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 21/2002-Customs, dated the 1st March, 2002 which was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R.118 (E) of the same date, namely:-

In the said notification,-

(1) in the preamble, in the proviso, after clause (h), the following clause shall be inserted, namely:-

“(ha) the goods specified against serial No.74B of the said Table on or after the 1st day of April, 2009.”;

(2) in the Table,-

(i) after S.No.74A and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“74B.	2710	Naphtha, when imported for generation of electrical energy by electrical undertakings owned by Central and State Governments or State Electricity Boards or any local authority or a person licensed under part II of the Electricity Act, 1910 or who has obtained a sanction under section 28 of the said act or a generating company permitted under the Electricity (Supply) Act, 1948 to supply electrical energy or to engage in the business of supplying electrical energy: Provided that the exemption shall not be available if such naphtha is used for generation of electrical energy for captive consumption.	Nil	-	”.

(ii) against S. No. 226, for the entry in column (5), the entry “10%” shall be substituted;

(iii) against S. No. 228, for the entry in column (5), the entry “10%” shall be substituted;

(iv) against S. No. 236, for the entry in column (5), the entry “10%” shall be substituted;

(v) against S. No. 237, for the entry in column (5), the entry “10%” shall be substituted;

(vi) against S. No. 344A, for the entry in column (5), the entry “10%” shall be substituted;

(vii) against S. No. 399, for the entry in column (5), occurring against the corresponding entries (i), (ii), (iv) & (vi) in column (3), the entry “10%” shall be substituted;

(viii) against S. No. 404, for the entry in column (5), the entry "10%" shall be substituted;

(ix) against S. No. 433, for the entry in column (5), occurring against the corresponding entry (1) in column (4), the entry "10%" shall be substituted.

[F. No. 354/207/2008-TRU]

UNMESH WAGH, Under Secy.

Note: - The principal notification No.21/2002-Customs dated the dated the 1st March, 2002, was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide G.S.R. 118 (E), dated the 1st March, 2002 and was last amended Notification No. 122/2008-Customs, dated the 18th November, 2008 [G.S.R. 794 (E), dated the 18th November, 2008].

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2008

सं. 129/2008-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 843(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की दूसरी अनुसूची के शीर्ष सं० 11 के अंतर्गत आने वाले लौह अयस्क फाइन्स को, जब उसका भारत से बाहर निर्यात किया जाए, उक्त दूसरी अनुसूची के अधीन उसपर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क से छूट देती है।

[फा. सं. 334/5/2008-टीआरयू (पार्ट-I)]

उन्मेष वाघ, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2008

Notification No. 129/2008-Customs

G.S.R. 843(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts iron ore fines falling under Heading No. 11 of the Second Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when exported out of India, from the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said Second Schedule.

[F. No. 334/5/2008-TRU (Pt-I)]

UNMESH WAGH, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2008

सं० 130/2008- सीमाशुल्क

सा.का.नि. 844(अ).—केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 79/2008-सीमाशुल्क, तारीख 13 जून, 2008, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), सा०का०नि० 458 (अ), तारीख 13 जून, 2008 में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्:- उक्त अधिसूचना में, अक्षर और शब्द "15 प्रतिशत मूल्यानुसार" के स्थान पर "5 प्रतिशत मूल्यानुसार" प्रतिस्थापित किया जायेगा।

[फा. सं. 334/5/2008-टीआरयू (पार्ट-I)]

उन्मेष वाघ, अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना 79/2008-सीमाशुल्क, तारीख 13 जून, 2008, सा०का०नि० 458 (अ), तारीख 13 जून, 2008 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं० 117/2008-सीमाशुल्क, तारीख 31 अक्टूबर, 2008, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), सा०का०नि० 761 (अ) तारीख 31 अक्टूबर, 2008 द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2008

Notification No. 130/2008-Customs

G.S.R. 844(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the Notification No. 79/2008-Customs, dated the 13th June, 2008, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 458(E), namely :-

In the said notification, for the figures and words "15% ad valorem", the figures and words "5% ad valorem" shall be substituted.

[F. No. 334/5/2008-TRU (Pt-I)]

UNMESH WAGH, Under Secy.

Note. - The principal notification No. 79/2008-Customs, dated the 13th June, 2008 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 458(E), dated the 13th June, 2008 and was last amended vide notification No. 117/2008, dated the 31st October, 2008, which was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 761(E) of the same date.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2008

सं. 131/2008-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 845(अ).—केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 116/2008-सीमाशुल्क, तारीख 31 अक्टूबर, 2008 जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा०का०नि० 760 (अ), तारीख 31 अक्टूबर, 2008 के द्वारा प्रकाशित हुई थी, को उन बातों के सिवाय जो ऐसे विखंडन से पूर्व की गई है या जिन्हें करने का लोप किया गया है, विखंडित करती है।

[फा. सं. 334/5/2008-टीआरयू (पार्ट-I)]

उन्मेष वाघ, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2008

Notification No. 131/2008-Customs

G.S.R. 845(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), no. 116/2008, dated the 31st October, 2008, which was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 760(E) of the same date, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 334/5/2008-TRU (Pt-I)]

UNMESH WAGH, Under Secy.